


कार्यालय ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- मेरठ ।  
प्रमाण-पत्र

पत्रांक 36 / ग्रा0अ0वि0 / एस0टी0 / नेश0बि0को0 / 2013-14 / दिनांक 3-5, 2013

1. विद्यालय का नाम :- एम0आई0ई0टी0 पब्लिक स्कूल, 6<sup>th</sup> माईल स्टोन, मवाना रोड, मेरठ ।
2. विकास खण्ड :- मेरठ,
3. पहुँच मार्ग :- है
4. सेट बैक :- उपलब्ध है

उक्त विद्यालय में भवन का निर्माण कार्य जी + 3 मंजिल का पूर्ण है । विद्यालय में शिक्षण कक्ष, लैट्रीन/बाथरूम एवं जीने का निर्माण कार्य मानको के अनुसार पूर्ण है । विद्यालय में सैनेटरी एवं स्वच्छ पेयजल व्यवस्था है । भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के भाग-4 के अनुसार सुरक्षित एवं मजबूत है ।

  
सहायक अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
प्रखण्ड- मेरठ



## KULBHUSHAN MITTAL & ASSOCIATES

- Architects • Engineers • Structure Designer
- Planner • Valuer

Approved Panel Valuer :  
Oriental Bank of Commerce  
Nainital Bank Ltd.  
Punjab National Bank  
Andhra Bank

**Er. Kulbhushan Mittal**  
B.E. (Civil), MIE (India)  
AM085420-7  
Chartered Engineer  
Approved Engineer for  
Meerut Development Authority  
Govt. Approved valuer  
MRT/CAT-1/25/2008-07/V1438

110, CITI CENTRE, BEGUM BRIDGE ROAD, MEERUT - 250 001, U.P. Date: 1/05/2013

E-mail : kbmittal@gmail.com


### CERTIFICATE.

#### REGARDING SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION

It is certified that an inspection team headed by **Er.Kulbhushan Mittal** inspected the **MIET Public school, Salarpur, Jalapur, Mawana Road, Meerut. (U.P.)** on **01.05.2013** and found that the **MIET Public School** has safe drinking water facilities (**installed R.O. plant in the school campus**) for the students and members of staff of the institution and is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per the norms prescribed by the Govt. of Uttar Pradesh.

The Copy of the Analysis Report and Test Certificate of Water from **M/s. Delhi Water & General Test Lab (P) Ltd., New Delhi** Approved by the Municipal Corporation of Delhi (Health Deptt.) for your kind perusal.

The above valid for a period of **Two Years**.



**Signature with Seal**  
**Name : Kulbhushan Mittal**  
**Designation : Chartered Engineer**

**To**  
**MIET Public School,**  
**Salarpur, Jalapur, Mawana Road,**  
**Meerut. (U.P.)**



# Shree Balaji Test Lab (Pvt.) Ltd.

ISO 9001 : 2015 CERTIFIED  
GOVT. APPROVED TESTING LAB



C-181, Naraina Industrial Area,  
Phase-1, New Delhi-110028  
Ph.: 011-47243939, Mob.: 07838654928  
E-mail : sbtl.lab@gmail.com

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

Submitted by : M/s MIET PUBLIC SCHOOL  
6<sup>th</sup> Milestone Mawana Road  
Meerut (U.P.)

Report No : SB-230819001  
Sample Recd on.: 23/08/2019

Name of sample: R.O water

Sample tested on: 23/08/2019 to 29/08/2019

Sample Qty : 1.0Ltr.

## RESULTS OF ANALYSIS

Reference	: IS:10500-2012. (ESSENTIAL PARAMETERS)			
Description	: Colourless liquid.			
Parameters	Results	Units	Desirable Limits	Test Method
Turbidity	: <1.0	NTU	Max 1.0	IS:3025 (P-10)
pH value at 25°C	: 6.79	-	6.5-8.5	IS:3025 (P-11)
Total Dissolved Solids	: 320.6	mg/L	Max 500	IS:3025 (P-16)
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	: 140.2	mg/L	Max 200	IS:3025 (P-21)
Total Iron (as Fe)	: 0.16	mg/L	Max 0.3	IS:3025 (P-53)
Chloride (as Cl)	: 49.6	mg/L	Max 250	IS:3025 (P-32)
Residual free chlorine	: Nil	mg/L	Max 0.2	IS:3025 (P-26)
Fluoride (as F)	: 0.12	mg/L	Max 1.0	APHA-21 <sup>st</sup> Edition
Sulphate (As SO <sub>4</sub> )	: 5.9	mg/L	Max 200	IS:3025 (P-24)
Nitrate (as No <sub>3</sub> )	: 2.6	mg/L	Max 45	IS:3025 (P-34)
Calcium (as Ca)	: 50.2	mg/L	Max 75	IS:3025 (P-40)
Magnesium (as Mg)	: 27.6	mg/L	Max 30	IS 3025 (P-46)

Remark : The above tested parameters meet IS:10500:2012 Specification.

29 Aug. 2019

PERSON-IN-CHARGE OF TESTING

### DATE OF COMPLETION

1. Sample (s) not drawn by us unless otherwise Stated.
2. Total Liability of Our Analytical Division is Limited to the invoiced amount only.
3. Sample will be destroyed after one month from the date of issue of test certificate unless otherwise specified.
4. Test Certificate in full or parts shall not be used for Promotional or Publicity Purposes.
5. Results given in report are related to sample Tested.